



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 544]

No. 544]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, नवम्बर 9, 2006/कार्तिक 18, 1928

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2006/KARTIKA 18, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2006

सं. 112/2006-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 696(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 146/94-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, सा.का.नि. 575(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सरणी में, क्रम सं. 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के अंत में, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)

(2)

(3)

"9. एयर राइफल/पिस्टल-0.177 कैलिबर यदि, -

(क) नेशनल राइफल एसोसिएशन उक्त माल भारत में ट्रेनिंग के प्रयोजन के लिए आयात करती है;

(ख) आयातक माल की निकासी के समय, यथास्थिति उपायुक्त सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त सीमाशुल्क के सामने खेल ऑथारिटी ऑफ इंडिया में, निदेशक या इससे ऊपर के पद के अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र, जिसमें कि छूट के लिए सिफारिश की गई हो, प्रस्तुत करेगा, जिसमें कि निम्नलिखित वर्णन हो, -

(i) उक्त माल के आयातक का नाम और पता;

(ii) उक्त माल की विशिष्टता, मात्रा और मूल्य; और

(iii) कि उक्त माल ट्रेनिंग के प्रयोजन के लिए आवश्यक है।"

[फा. सं. 354/118/2005-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 146/94-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, सं. सा.का.नि. 575(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी, और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 19/2004-सीमाशुल्क, तारीख 13 जनवरी, 2004, सं. सा.का.नि. 41(अ) तारीख 13 जनवरी, 2004 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2006

No. 112/2006-Customs

G.S.R. 696(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 146/94-Customs, dated the 13th July, 1994, G.S.R. 575(E), dated the 13th July, 1994, namely:—

In the said notification, in the Table, after S.No. 8 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be added at the end, namely:—

(1)	(2)	(3)
“9. Air Rifles/Pistols- 0.177 calibres If, -		
	(a)	the said goods are imported into India by the National Rifle Association of India for the purpose of imparting training;
	(b)	the importer, at the time of clearance of the goods, produces a certificate to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, from an officer not below the rank of a Director in the Sports Authority of India, recommending grant of exemption to the said goods and indicating, —
	(i)	the name and address of the importer of the said goods;
	(ii)	the description, quantity and value of the said goods;
	(iii)	that the said goods are required for the purpose of imparting training.”

[F. No. 354/118/2005-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: The principal notification No.146/94-Customs, dated the 13th July,1994 was published in the Gazette of India Extraordinary *vide* number G.S.R. 575(E), dated the 13th July,1994 and was last amended by notification No.19/2004-Customs, dated the 13th January, 2004, published *vide* number G.S.R. 41(E), dated the 13th January, 2004.